



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 438 राँची, गुरुवार

4 आषाढ, 1937 (श०)

25 जून, 2015 (ई०)

### नगर विकास विभाग

#### अधिसूचना

22 जून, 2015

संख्या-2(ए0)/न0वि0/मु0स्था0-41/14/2158-- श्री सुरेश पासवान, प्रभारी मुख्य अभियंता, नगर निगम, राँची को अपने कार्यों के अतिरिक्त मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची तथा परियोजना निदेशक (तकनीकी) JUIDCO, के रिक्त पद पर कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

1. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,  
मंजु लता कंठ,  
सरकार के उप सचिव।